

Harvard University  
Urdu 102: Intermediate Urdu-Hindi

शोले

Part 4

जेल के अन्दर। जय और बीरू और बाकी कैदी खड़े हो कर परेड का इन्तज़ार कर रहे हैं। तब जेलर जो हिट्लर की तरह दीखता है, सिपाहियों के साथ परेड कराने आ जाता है।

सिपाही	"Attention"
बीरू -	यह साली परेड कब से शुरू हुई?
कैदी -	बेटा, तुम्हारा आज पहला दिन है। सब पता चल जाएगा। नया जेलर बहुत "कटूस" है।
बीरू -	नया जेलर बहुत "कटूस" है।
जय -	आ रहा है। (जेलर कुछ सिपाहियों के साथ आता है।)
जेलर -	Attention. हमने कहा "Attention".
सिपाही -	सर, वे तो पहले से attention हैं।
जेलर -	हम जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं। (कैदियों से) कैदियो! कान खोलकर सुन लो। हमारे आने से पहले जो कुछ इस जेल में होता रहा है वह जब तक हम हैं, नहीं चलेगा। No, no, no, no. हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फ़िक्र में लगे रहते हैं। हा हा। हम अच्छी तरह जानते हैं, तुम लोग कभी नहीं सुधार सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधार सकते तो तुम क्या सुधरोगे? हैं? हम जानते हैं कि आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता। इसीलिये हमारी हर जगह से कुछ दिनों में बदली हो जाती है। हा। लेकिन हमारी इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। हा हा। इसलिये याद रखो। यह मत समझना कि जो कुछ तुम करते हो उस की ख़बर हमको नहीं मिलती। हमारे जासूस इस जेल में चारों तरफ़ फैले हुए हैं। घड़ी घड़ी की रिपोर्ट

हमको मिल जाती है। हमारे जाने बिना, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। (एक परिंदा पर मार कर जेलर के मुँह के पास से उड़ जाता है।) हे हे, यह क्या है?

सिपाही -

परिंदा हुजूर, कबूतर... कबूतर

जेलर -

मेरी आँख में कुछ है। निकालो उसे। जाने दो। आज के लिये इतना काफ़ी है। अब तुम लोग जा सकते हो। चलो। (जेलर चला जाता है।)

वीरु -

बड़ा अजीब आदमी है।

जय -

यह जेलर का जासूस कौन है?

कैदी -

मैं बताऊँ? वह है न, अपना हरिराम नाई। जेलर का बड़ा मुँहचढ़ा है, मुआ। हाँ

जय और वीरु (एक साथ) - हरिराम नाई।

\*\*\*\*\*

जय और वीरु वहाँ जाते हैं जहाँ हरिराम नाई काम करता है। एक दीवार के पीछे छिपकर बात करते हैं।

कैदी -

हरिराम, अब तो ये मूँछें निकाल दो।

जय -

(फुसफुसाकर) लल्लू, सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। कल से काम शुरू।

वीरु -

अच्छा, कितने दिन लगेंगे, सुरंग बनाने को। (हरिराम यह सुन कर चौक जाता है और ग़लती से कैदी का मुँह उस्तरे से काट देता है।)

कैदी -

आइस्सई! काट दिया!

जय -

सुरंग बनाने को? यह कोई छै सात दिन में काम हो जाएगा।

वीरु -

सुरंग निकाल कहाँ से रहे हो?

जय -

बैरक नम्बर नौ के बराबर से।

वीरु -

कहीं जेलर को पता न चल जाये।

जय -

किसी को कानों-कान ख़बर नहीं होगी।

दोनों -

हा हा हा हा हा आओ।

हरिराम -

(कैदी की आधी ही दाढ़ी बनाकर कहता है) बस, हो गया।

हाँ।

\*\*\*\*\*

हरिराम दफ़्तर में जेलर के पास जाता है।

हरिराम -	साहब।
जेलर -	आओ हरिराम। क्या खबर लाये हो?
हरिराम -	साहब। होशियार रहिये। जेल में सुरंग बनने वाली है।
जेलर -	आओ। जेल में सुरंग? क्या कहा? हमारी जेल में सुरंग?
हरिराम -	जी हाँ, कैदी जेल में सुरंग बना रहे हैं।
जेलर -	हम अंग्रेज़ के ज़माने के जेलर हैं। हमारी जेल में सुरंग? हा हा।

\*\*\*\*\*

जेलर कुछ सिपाहियों को लिये बाहर आ कर कैदियों के पास जाता है।

जेलर -	Halt! Attention! अहा। तो, यहाँ से एक सुरंग बनने वाली है। बहुत अच्छे। लेकिन तुम लोग भूल गये कि हमारे जासूस इस जेल के कोने कोने में फैले हुए हैं। हा हा। यह क्या है? (टोकरे को लात मार कर) ओ! तो यह है सुरंग बनाने का औज़ार। हम अंग्रेज़ के ज़माने के जेलर। (वह एक लोहे का डंड़ा उठाता है जो कि वीरु ने थोड़ी देर पहले गर्म कर रखी थी।)
--------	---

**अन्दर** = inside (adv)

**साला** = brother-in-law (term of abuse – bastard) (m)

**पता चलना** = to find out (vi)

**सर** = Sir!

**कैदी** = prisoner (m)

**कान खोल कर सुनना** = to listen carefully (having opened the your ears to listen)

**जो कुछ** = whatever (adj)

**जब तक हम हैं (तब तक) नहीं चलेगा** = this will not happen as long as I am here

**ज़माना** = age, period (m)

**x की तरह** = like x

**सुधारना** = to improve (something) (vt)

**फ़िक्र** = concern (f)

**फ़िक्र में लगना** = to be caught up in a concern (vi)

**अच्छी तरह** = well (adv)

**सुधरना** = to improve (vi)

**अरे** = hey!

**पसंद करना** = to like (vt)

**इसलिये** = therefore (conj)

**बदली** = transfer (f)

**बदलना** = to change (vt, vi)

**याद रखना** = to remember (vt)

**समझना** = to understand (vt, vi)

**ख़बर** = news (f)

**जासूस** = spy (m)

**चारों तरफ़** = everywhere (adv)

**फैलना** = to spread (vi)

**घड़ी घड़ी की रिपोर्ट** = report of each and every moment

**जाने बिना** = without knowing

**परिंदा** = bird (m)

**पर** = wing (m)

**पर मारना** = to flap the wings (vt)

**मुँह** = face, mouth (m)

**उड़ना** = to fly (vi)

**अजीब** = strange (adj)

**हरिम** = name

**नाई** = barber (m)

**मुँहचढ़ा** = given too much liberty (adj)

**मुआ** = term of abuse for men (adj)

**दीवार** = wall (f)

**छिपना** = to hide (vi)

- मूँछ** = moustache (f0)
- फुसफुसाना** = to whisper (vi)
- सारा** = entire (adj)
- तैयारी** = preparation (f)
- सुरंग** = tunnel (f)
- बनाना** = to make (vt)
- चौकना** = to be startled (vi)
- ग़लती से** = by mistake (adv)
- काटना** = to cut (vt)
- निकालना** = to bring out (vt)
- बैरक** = barrack (m)
- बराबर** = beside, equal to (adv)
- कानों-कान ख़बर न होना** = to have a veil of secrecy (vi)
- आधा** = half (adj)
- दाढ़ी** = beard (f)
- दाढ़ी बनाना** = to shave (vt)
- लाना** = to bring (vi)
- होशियार रहना** = to remain vigilant (vi)
- भूल जाना** = to forget (vi)
- कोने-कोने में** = in every corner (adv)
- टोकरा** = basket (m)
- लात मारना** = to kick (vt)
- औज़ार** = tool, implement (m)